

CBT OCTOBER SST ANSWER SHEET

I. Jhumming The 'slash and burn' agriculture is known as 'Milpa' in Mexico and Central America, 'Conuco' in Venezuela, 'Roca' in Brazil, 'Masole' in Central Africa. 'Ladang' in Indonesia, 'Ray' in Vietnam. In India, this primitive form of cultivation is called 'Bewar' or 'Dahiya' in Madhya Pradesh, 'Podu' or 'Penda' in Andhra Pradesh, 'PamaDabi' or 'Koman' or 'Bringa' in Odisha, 'Kumari' in Western Ghats, 'Valre' or 'Waltre' in South-Eastern Rajasthan, 'Khil' in the Himalayan belt, 'Kuruwa' in Jharkhand, and 'Jhumming' in the North-Eastern region.

Q.1 The 'slash and burn' agriculture is known as 'Conuco' in which one of the following countries?

- (a) Venezuela
- (b) Brazil
- (c) Indonesia
- (d) Mexico

1. Ans. (a) Venezuela

Because it is known as Milpa in Mexico, Roca in Brazil and Ladang in Indonesia

Q.2 The 'slash and burn' agriculture is known as 'Roca' in which one of the following countries?

- (a) Mexico
- (b) Indonesia
- (c) Brazil
- (d) Venezuela

Ans. (c) Brazil

Because it is known as Milpa in Mexico, Conuco in Venezuela and Ladang in Indonesia

Q.3 In India 'slash and burn' agriculture is known as 'Bewar' in which one of the following states?

- (a) Andhra Pradesh
- (b) Madhya Pradesh
- (c) Rajasthan
- (d) Jharkhand

Ans. (b) Madhya Pradesh

'Bewar' or 'Dahiya' in Madhya Pradesh, 'Podu' or 'Penda' in Andhra Pradesh, 'PamaDabi' or 'Koman' or 'Bringa' in Odisha, 'Kumari' in Western Ghats, 'Valre' or 'Waltre' in South-Eastern Rajasthan, 'Khil' in the Himalayan belt, 'Kuruwa' in Jharkhand, and 'Jhumming' in the North-Eastern region.

Q.4 What is the term used to describe 'slash and burn' agriculture in the North-Eastern region of India?

- (a) Milpa

- (b) Conuco
- (c) Roca
- (d) Jhumming

Ans. (d) Jhumming

'Bewar' or 'Dahiya' in Madhya Pradesh, 'Podu' or 'Penda' in Andhra Pradesh, 'PamaDabi' or 'Koman' or 'Bringa' in Odisha, 'Kumari' in Western Ghats, 'Valre' or 'Waltre' in South-Eastern Rajasthan, 'Khil' in the Himalayan belt, 'Kuruwa' in Jharkhand, and 'Jhumming' in the North-Eastern region.

Q.5 Which of the following is NOT a term used to describe 'slash and burn' agriculture in India?

- (a) Bewar
- (b) Podu
- (c) PamaDabi
- (d) Ray

Ans. (d) Ray

'Bewar' or 'Dahiya' in Madhya Pradesh, 'Podu' or 'Penda' in Andhra Pradesh, 'PamaDabi' or 'Koman' or 'Bringa' in Odisha, 'Kumari' in Western Ghats, 'Valre' or 'Waltre' in South-Eastern Rajasthan, 'Khil' in the Himalayan belt, 'Kuruwa' in Jharkhand, and 'Jhumming' in the North-Eastern region.

I. झुमिंग'काटोऔरजलाओ'

कृषिकोमेक्सिकोऔरमध्यअमेरिकामें'मिल्पा',

वेनेजुएलामें'कोनुको', ब्राजीलमें'रोका',

मध्यअफ्रीकामें'मसोले'

केनामसेजानाजाताहै।इंडोनेशियामें'लदांग',

वियतनाममें'रे'।भारतमें,

खेतीकेइसआदिमरूपकोमध्यप्रदेशमें'बेवर' या'दहिया',

आंध्रप्रदेशमें'पोडु' या'पेंडा', ओडिशामें'पामाडाबी' या'कोमान'

या'बुंगा', 'कुमारी' कहाजाताहै।पश्चिमीघाटमें,

दक्षिण-पूर्वीराजस्थानमें'वाले' या'वाल्त्रे',

हिमालयबेल्टमें'खिल', झारखंडमें'कुरुवा'

औरउत्तर-पूर्वीक्षेत्रमें'झुमिंग'।

Q.1निम्नलिखितमेंसेकिसदेशमें'काटकरजलाओ'

कृषिको'कोनुको' केनामसेजानाजाताहै?

(ए) वेनेजुएला

(बी) ब्राजील

(सी) इंडोनेशिया

(डी) मेक्सिको

Q.2 निम्नलिखित में से किस देश में 'काटना और जलाना'

कृषिको 'रोका' के नाम से जाना जाता है?

(ए) मेक्सिको

(बी) इंडोनेशिया

(सी) ब्राजील

(डी) वेनेजुएला

Q.3 भारत में 'काटो और जलाओ'

कृषिको निम्नलिखित में से किस राज्य में 'बेवर'

के नाम से जाना जाता है?

(ए) आंध्र प्रदेश

(बी) मध्य प्रदेश

(सी) राजस्थान

(डी) झारखंड

Q.4 भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 'काटना और जलाना'

कृषिका वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है?

(ए) मिल्पा

(बी) कोनुको

(सी) रोका

(डी) झूमिंग

Q.5 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में 'काटना और जला

ना' कृषिका वर्णन करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है?

(ए) बेवर

(बी) पोडु

(सी) पामाडाबी

(डी) रे

II. There are reports of various kinds of harassment, exploitation and violence against women. Urban areas have become particularly unsafe for women. They are not safe even within their own home from beating, harassment and, other forms of domestic violence. All this is well known yet issues related to women's well being or otherwise are not given adequate attention. This has led many feminists and women's movements to the conclusion that unless women control power, their problems will not get adequate attention. One way to ensure this is to have more women as elected representatives.

Q.1 What is one of the main concerns faced by women in urban areas?

A) Lack of educational opportunities

B) Limited access to healthcare

C) Harassment and violence

D) Unequal pay in the workplace

Ans. C) Harassment and violence

Urban areas have become particularly unsafe for women. They are not safe even within their own home from beating, harassment and, other forms of domestic violence

Q.2 According to feminists and women's movements, what is one way to ensure that women's problems receive adequate attention?

A) Increase funding for women's organizations

B) Implement stricter laws against harassment

C) Provide self-defense training for women

D) Have more women as elected representatives

ANS- D) Have more women as elected representatives

This has led many feminists and women's movements to the conclusion that unless women control power, their problems will not get adequate attention. One way to ensure this is to have more women as elected representatives.

Q.3 What type of violence can women experience even within their own homes?

A) Workplace discrimination

B) Cyberbullying

C) Domestic violence

D) Street harassment

Ans.C) Domestic violence

They are not safe even within their own home from beating, harassment and, other forms of domestic violence

Q.4 Why do many feminists and women's movements advocate for women to have more representation in positions of power?

A) To increase women's access to education

B) To address gender pay gaps

C) To ensure women's problems receive attention

D) To promote women's health and well-being

Ans. C) To ensure women's problems receive attention

This has led many feminists and women's movements to the conclusion that unless women control power, their problems will not get

adequate attention. One way to ensure this is to have more women as elected representatives.

Q.5 What is one of the main concerns regarding women's safety in urban areas?

- A) Limited access to transportation
- B) Lack of affordable housing
- C) Insufficient job opportunities
- D) Increased risk of harassment and violence

Ans. D) Increased risk of harassment and violence

There are reports of various kinds of harassment, exploitation and violence against women

II. महिलाओंके खिलाफ तरह-तरहके उत्पीड़न, शोषण और हिंसा की खबरें आती रहती हैं। शहरी क्षेत्र में महिलाओंके लिए विशेष रूपसे असुरक्षित हो गए हैं। वे अपने घर में भी पिटाई, उत्पीड़न और अन्य प्रकारकी घरेलू हिंसा से सुरक्षित नहीं हैं। यह सब तो सर्वविदित है फिर भी महिलाओंकी भलाईसे संबंधित मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। इसने कई नारीवादियों और महिला आंदोलनोंको इस निष्कर्ष पर पहुँचाया है कि जब तक महिलाँ सत्ता पर नियंत्रण नहीं रखती, उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसे सुनिश्चित करनेका एक तरीका निर्वाचित प्रतिनिधियोंके रूपमें अधिक महिलाओंको शामिल करना है।

Q.1 शहरी क्षेत्रोंमें महिलाओंद्वारा सामना की जाने वाली मुख्य चिंताओंमें से एक क्या है?

- ए) शैक्षिक अवसरोंका अभाव
- बी) स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच
- सी) उत्पीड़न और हिंसा
- डी) कार्यस्थल पर असमान वेतन

Q.2 नारीवादियों और महिला आंदोलनोंके अनुसार, यह सुनिश्चित करनेका एक तरीका क्या है कि महिलाओंकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए?

- ए) महिला संगठनोंके लिए फंडिंग बढ़ाएँ
- बी) उत्पीड़नके खिलाफ सख्त कानून लागू करें
- सी) महिलाओंके लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना

डी)

निर्वाचित प्रतिनिधियोंके रूपमें अधिक महिलाओंको शामिल करना

Q.3 महिलाएं अपने घरोंमें भी किस प्रकारकी हिंसाका अनुभव कर सकती हैं?

- ए) कार्यस्थल भेदभाव
- बी) साइबर बुलिंग
- ग) घरेलू हिंसा
- डी) सड़क पर उत्पीड़न

Q.4 कई नारीवादी और महिला आंदोलन सत्ताके पदों पर महिलाओंको अधिक प्रतिनिधित्व देनेकी वकालत क्यों करते हैं?

- ए) महिलाओंकी शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना
- बी) लैंगिक वेतन अंतरको संबोधित करनेके लिए
- सी) यह सुनिश्चित करना कि महिलाओंकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए
- डी) महिलाओंके स्वास्थ्य और कल्याणको बढ़ावा देना

Q.5 शहरी क्षेत्रोंमें महिला सुरक्षाके संबंधमें मुख्य चिंताओंमें से एक क्या है?

- ए) परिवहन तक सीमित पहुंच
- बी) किफायती आवासका अभाव
- सी) अपर्याप्त नौकरीके अवसर
- डी) उत्पीड़न और हिंसाका खतरा बढ़ गया